



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, रविवार, 26 सितम्बर, 2021

आश्विन 4, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

गोपन अनुभाग-1

संख्या 1/2/1/2017-सी०एक्स० (1)

लखनऊ, 26 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश की माननीया राज्यपाल ने, मा० मुख्य मंत्री जी की मंत्रणा से, दिनांक 26 सितम्बर, 2021 के अपरान्ह से निम्नलिखित को उत्तर प्रदेश का मंत्री/राज्य मंत्री नियुक्त किया है :-

मंत्री

1-श्री जितिन प्रसाद

राज्य मंत्री

1-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार

2-श्री पल्लूराम

3-डॉ० संगीता बलवन्त

4-श्री संजीव कुमार

5-श्री दिनेश खटीक

6-श्री धर्मवीर सिंह

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

मुख्य सचिव।

संख्या 1/2/1/2017-सी० एक्स० (1), तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव।
- 2-मा० मुख्य मंत्री/मा० उप मुख्य मंत्रीगण/समस्त मा० मंत्रीगण/मा० राज्य मंत्रीगण (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव।
- 3-शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 4-उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव।
- 5-राज्य सम्पत्ति अधिकारी।
- 6-सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ।
- 7-उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रधान कार्यालयाध्यक्ष।
- 8-महालेखाकार- तृतीय, जी०ए०-1 अनुभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आज्ञा से,  
कृष्ण गोपाल,  
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 362 राजपत्र-2021-(821)-588 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० गोपन-2021-(822)-300 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।